

571



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1982/चैत्र 6, 1904

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1982/CHAITRA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1982

आ० अ० 26(अ).-निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम
11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, निम्नलिखित को सार्वजनिक
सूचनाएं प्रकाशित किया जाता है :-

प्रकरण 7 अ

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिए]

ग्राम्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के
लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	आदिभारायण रेड्डी	लुम्बु पल्ले (पो० आ०), कुड्डापह जिला, ग्राम्य प्रदेश।
2.	टी० के० कोट्टाहासम	म० न० 12-1-416, नालपेट कालोनी, सिकन्दराबाद- 500789
3.	के० एन० एन० प्रसाद	म० न० 8-2-674/4, रोड न० 12, बजारा हिस्सा, हैदराबाद-500034

1	2	3
4.	पी० बाबुल रेड्डी	म० न० 3-4-863, बर्कतपुर, हैदराबाद
5.	एस० बी० रमेश बाबू	मकान न० 11-6-517, नामपल्ली, हैदराबाद, ग्राम्य प्रदेश।
6.	बी० रामचन्द्र राव	मकान न० 460/4, करवान, हैदराबाद
7.	राधापति सम्बा सिव राव	म० न० 4-107, उत्तुबुर्ग, मंगलगिरि तालुक, गुन्टुरजिला।
8.	एस० एम० हाशिम	म० न० 6-3-870/5, न० 2, मिनिस्टर्ज, कालानी, बेगम पेट, हैदराबाद- 500016 ग्राम्य प्रदेश।

स्थान ऐसेम्बली बिल्डिंग,
पब्लिक गार्डन्ज,
हैदराबाद।

तारीख 22 मार्च, 1982

ह०/-

ई० एस० रेड्डी, रिटनिंग आफिसर,

प्रकरण 7 ख

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचित लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	जगदम्बी प्रसाद यादव	हकासीटाला, पो० बरियापुर, जिला - मुंगेर
2.	अमर चन्द जैन	अमलाटीला, बाई नं०-3, पो०-चाईघासा, जि० मिहभूम
3.	नवल किशोर रक्षपाल	आर० के० एवेन्स, राजेंद्रनगर, पटना-800016
4.	प्रतिभा सिंह	ग्राम-सुरसङ, जिला सितामढ़ी
5.	भीष्म नारायण सिंह	डालटनगंज नगरपालिका, बाई नं०-13, पो०-डालटनगंज, जिला-पलामू
6.	शोला पामत्रान शास्त्री	कौलाश पूनिया सवर, बाई नं० 10 जिला-पूनिया
7.	महावीर प्रसाद	ग्राम- किरतपुर, पो० रमियारी, जिला - दरभंगा
8.	महेन्द्र मोहन मिश्र	महल्ला रमना जिला स्कूल, बाई नं० 24 पो० मुजफ्फरपुर, जिला - मुजफ्फरपुर
9.	रफिक अलाम	गांगोहूट, अचन कायाघामन, जिला-पुनिया.
10.	रामबालु सिंह	गाव भाइबक, थाना फुलवारी, पचायत परमा, डा० पिपुगा, पटना
11.	रामानन्द यादव	ग्राम-बगही, थाना नं० 50/1 पो० मुबारकपुर, सवर छपरा, जिला-सारण
12.	रूप किशोर गुप्ता	अंचल बारुन, पचायत बारुन, डा०-बारुन थाना-बारुन, सबडीबीजन औरगावाड जिला- औरगावाड
13.	सूरज प्रसाद	ग्राम- शिवपुर, पो० कैमट, जिला-भोजपुर

स्थान : बिहार विधान-सभा भवन, पटना

तारीख 22 मार्च, 1982

आर० एन० ठाकुर, रिटनिंग आफिसर और सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

प्रकरण 7 ख

निर्वाचित लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवाचिक निर्वाचित।

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	राम फल	मकान नं० 202, बाई नं० 24, देवतगर, सोनीपत।
2.	मुष्मा स्वरज	181/182 बी०सी० बाजार, अम्बाला छावनी।
3.	हरि सिंह	14-ए फिरोजपुर रोड, नई दिल्ली। स्थायी पता गांव उजाड़ गांव तथा डाकखाना रिसाल तहसील पानीपत जिला करनाल।

स्थान : हरियाणा विधान सभा सचिवालय,
विधान भवन, चंडीगढ़।

राज कृष्ण रिटनिंग आफिसर

दिनांक 22 मार्च, 1982

प्रकरण 7 ख

निर्वाचित लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10 (1) देखिए]

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	श्री अजयदेव अन्व	पेड़कोट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
2.	श्री राजन लाल	ग्राम ब डा० सनावर, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

स्थान : हिमाचल प्रदेश विधान सभा, जिमला-4

दिनांक 22 मार्च, 1982

आर० के० महाजन, रिटनिंग आफिसर
(सचिव, विधान सभा)

हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित के लिए।

प्रकरण-7 ख

निर्वाचित लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

मध्य प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवाचिक निर्वाचित।

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	केशवप्रसाद शुक्ल	उपरहट्टी, गेवा (मध्य प्रदेश)
2.	रत्ना कुमारी	म०नं० 238, कोतवाली बाई, जबलपुर

प्रकरण 7 ख

3 रमेशचन्द्र श्रीवास्तव	110/23, शिवाजी नगर, भोपाल, ।
4 राधाकिशन सावधीय	ग्राम भिखारी हप्पी पा० भिखोली
5 लाल	मरदाना, तहमील इंदौर (मध्य प्रदेश) । 14/3, द्वारा श्री भालमचन्द्र मिश्री, तली की बजारिया, नया बाजार, नरकर (खालियर) मध्य प्रदेश ।
6 हसराम भारद्वाज	48/1, दत्तपुरा, मुरैना (मध्य प्रदेश) ।
7 श्रीकाल बर्मा	निम्न नगर, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) ।

स्थान मध्य प्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल
दिनांक 22 मार्च, 1982 (बैठ 1, 1904) कैलाश किशोर गुप्ता,
रिटनिंग आफिसर
राज्य सभा निर्वाचन मध्य प्रदेश

प्रकरण 7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1 कलमारी, सुरेश शास्त्राव	घर न० 42/8, म० न० पा० वार्ड न० 8, परडवणा, पुणे-4 ।	
2 खापरे, मंगेश गुरुवात्मय	"गार्धी कृटी" डा० अंबेडकर रोड, नागपुर-17 ।	
3 जाधव, विठ्ठलराव साधव राव भाग्य	नगर, नांदेड ।	
4 देवगोडे, बाली लक्ष्मण	म्यु० न० 3, गहा निवास, दावर, बम्बई-14 ।	
5 पाटील, दिनकरराव गोविंदराव	28, वसंत कामोली, मातमी ।	
6 डा० बापू कामराव	सन्मिल कामोली, धोरगाव ब्राद-431001 ।	
7 भांडारे, सुरभीधर चन्द्रकाव	352, गिरगाव, (जगन्नाथ शक मठ रोड), बम्बई-100002 ।	
8 महाजन, प्रमोद व्यंकटेश	19/449, विजय नगर, महार मार्ग, अधोरी (पुन) बम्बई-100069 ।	
9 भोरारका, कमल महावीर प्रसाद	24-बी०, वारमायकेन रोड, बम्बई-400026 ।	
10 सिंह बिभूजीत पृथ्वीजीत	11-अ, मेहेरीना नैपियन की रोड, बम्बई ।	

स्थान विधान भवन बैयवे रेक्वेसेजन्त, डा० ०म०जी० राणे, रिटनिंग आफिसर
बम्बई 400032

दिनांक 22 मार्च 1982

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन
(द्विबार्षिक निर्वाचन)

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1 अमरजीत कौर	मोल्ड मोतीबाग एनक्वी, पटियाला ।	
2 यतपाल	13-14 ई मार्ग नगर, लुधियाना ।	
3 सुरेश्वर सिंह	ग्राम थ पो० घा० टोहरा, जिला पटियाला ।	
4 अमरजीत सिंह	230-एल, साइल टाउन, जालंधर ।	
5 भगत सिंह डा०	27, एम०एम०एम० फ्लैट, मैकटर, 3, चण्डीगढ़ ।	

स्थान पंजाब विधान सभा
सचिवालय विधान भवन चण्डीगढ़
दिनांक 22 मार्च, 1982
पंजाब विधान सभा के निर्वाचित
सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए
द्विबार्षिक निर्वाचन के लिए

प्रकरण-7 ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य
सभा के लिए निर्वाचन

क्र०सं०	अभ्यर्थियों का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1 गुल मोहम्मद	सार्दलसिंह की नाल, गणगोरी बाजार, जयपुर-2 ।	
2 दिवाकर प्रकाश जैन	राष्ट्रीय पुस्तक भंडार, बस स्टैंड, पो० सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।	
3 तन्हा	वार्ड न० 6 बयाना, जिला भरतपुर ।	
4 भुवनेश	भरत स्मृति, भीमगज मंडी, कोटा-2 ।	
5 माहम्मद उम्मान	जुनगरान, बीकानेर ।	
6 अर्मानारायण लाटरीवाला	मकान न० 1766, दूसरा चौराहा, गतिनंद राजस्थान का रास्ता, जयपुर ।	
7 बिष्णु	किलका, श्री का मन्दिर, मिर्हडियाड़ी दरवाज क सामने, हवामहल रोड, जयपुर ।	
8 मृन्दर सिंह	पचायती नोहरा, उदयपुर ।	

स्थान मवाई मातमिह टाऊन हाथ, प्यारे मोहन, निर्वाचन पदाधिकारी
जयपुर 302002
दिनांक 22 मार्च, 1982 राज्य सभा के लिए द्विबार्षिक निर्वाचन

प्रकरण 7-ब

for general information:—

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 10(1) देखिए]

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा का द्वि-
वार्षिक निर्वाचन, 1982

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	कृष्णा कौल, श्रीमती	अ/11, सर्वोदयनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
2.	कृष्णा नन्द जोशी, श्री	शान्तिपुरी, ब्लॉक-2 नहसील- किच्छा, नैनीताल।
3.	धन श्याम सिंह, श्री	ग्राम सोफा डा० क्यालनगर नहसील खैर अलीगढ़।
4.	जगदीश प्रसाद गोयल, श्री	ग्राम ब पोस्ट नाला बाया पैलम (एन०रेलवे), मुजफ्फरनगर (यू०पी०)।
5.	ब्रिजशम्भर नाथ पाण्डे, श्री	142/144, साऊथ मलाका, इलाहाबाद।
6.	रजनी कान्त वर्मा, श्री	53, आर्कलस होस्टल, मीरा बाई मार्ग, लखनऊ।
7.	राज नारायण, श्री	सेनपुरा, बाराणसी।
8.	राम धन, श्री	बल्थी निकेतन रैदीपुर, ब्राजमगढ़।
9.	राम नरेश, श्री	कम्बा, लार, पोस्टर लार, देवरिया।
10.	शान्ति त्यागी, श्री	ग्राम ब पोस्ट कैथवाड़ा, मेरठ।
11.	श्याम लाल यादव, श्री	सी-27/137-6, रामपुरी, जगतगंज, बाराणसी।
12.	संकटा प्रसाद, डा०	17/57, रोटी गोधाम, सीतापुर।
13.	मिह, जे०पी०, श्री	5, बे रोड, लखनऊ।
14.	मुख वेच, श्री	ग्राम ब पोस्ट पिपरापानी, गोरखपुर।
15.	हरि सिंह "प्राज्ञाद", डा०	ग्राम ब पोस्ट दबावली गेसपुरख, मेरठ।
16.	हाशिम रजा आबदी इलाहाबादी, श्री	कोटी खामबाग, रामपुर (यू०पी०)।

स्थान : विधान भवन, लखनऊ
दिनांक 22 मार्च, 1982महेश प्रिय सिंह, रिटर्निंग आफिसर
उत्तर प्रदेश विधान सभा के
निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य
सभा के निर्वाचन के लिए

[स० 3/8/अ०प्र०/82]

आवेश से,
के गणेशन, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग।ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, 27th March, 1982

O.N. 26(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the
Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members
of the Legislative Assembly of Andhra Pradesh.

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Adinarayana Reddy.	Tsundu Palle (P.O.), Cuddapah District, Andhra Pradesh.
2.	T. K. Kodandaram.	H No. 12-1-416, Kalapet Colo- ny, Secunderabad-500789.
3.	K.L.N. Prasad.	H. No. 8-2-764/4, Road No. 12, Banjara Hills, Hydera- bad-500034.
4.	P. Babul Reddy	H. No. 3-4-863, Barkatpura, Hyderabad.
5.	S.B. Ramesh Babu	House No. 11-6-517, Nam- pally, Hyderabad, Andhra Pradesh.
6.	B. Ramachandra Rao	House No. 460/4, Karwan, Hyderabad.
7.	Rayapati Samba Siva Rao.	H.No. 4-107, Unguturu, Man- galagiri Taluk, Guntur Dis- trict.
8.	M.M. Hashim	H.No. 6-3-870/5 No. 2, Ministers' Colony, Begumpet. Hyderabad-500016, Andhra Pradesh.

Assembly Buildings,
Public Gardens,
Hyderabad.

Dated the 22nd March, 1982.

Sd/-
E.S. REDDY, Returning Officer

FORM 7B

[See Rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the Council of States by elected members of the Bihar
Legislative Assembly

Serial No.	Name of Candidate	Address of candidate
1	2	3
1.	Jagdambī Pd. Yadav	Ikasitola, Post-Bariarpur, Distt. Monghyr.
2.	Dharam Chand Jain.	Amlatola, Ward No. 3, Post- Chaiswala, Distt. Singh- bhum.
3.	Nawal Kishore Rakshpal.	R.K. Avenue Rajindernagar Patna-800016.

1	2	3
4. Pratibha Singh.	Gram Sursand, Distt. Sitamarhi.	
5. Bhishma Narain Singh.	Deltonganj Nagarpalika, Ward No. 13, Post-Deltonganj, Distt. Palaman.	
6. Bhola Paswan Shastri.	Kailash Purnea Sadar, Ward No. 10, Distt. Purnea.	
7. Mahabir Prasad.	Gram-Kiratpur, Post-Raisari, Distt. Darbhanga.	
8. Mahendra Mohan Mishra	Mohalla Ramna, Distt. School Ward No 24, Post-Muzaffarpur, Distt. Muzaffarpur.	
9. Rafique Alam.	Gangohat, Anchal Koya-ghaman, Distt. Purnea	
10. Ram Babu Singh.	Village Bhaichak, Thana-Phulwari Panchayat Parsa, Post-Pipurai Patna.	
11. Rama Nand Yadav	Gram-Beghi, Thana No. 50/1, Post-Mubarakpur, Sadar Chhapra, Distt. Saran	
12. Roop Kishore Gupta	Anchal Barun, Panchayat Barun, Post-Barun, Thana Barun, Sub-division Aurangabad, Distt. Aurangabad.	
13. Suraj Prasad	Gram-Shivpur, Post-Kesath, Distt. Bhojpur.	

Place : Bihar Vidhan Sabha Bhavan, Patna.

Date: 22 March, 1982.

R.N. THAKUR, Returning Officer and Secretary
Bihar Vidhan-Sabha, Patna.

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See Rule 10(1)]

Biennial election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Haryana State.

Serial Number	Name of Candidate	Address of candidates
1.	Ram Phal.	House No. 202, Ward No. 24, Dev Nagar, Sonapat.
2.	Sushma Swaraj.	181/182 B.C. Bazar, Ambala Cantt.
3.	Hari Singh.	14-A Feroze Shah Road, New Delhi. Permanent Address: Village Ujha P.O. Village Risalu Teh. Panipat Distt. Karnal.

Place: Haryana Vidhan Sabha Secretariat,
Vidhan Bhawan, Chandigarh-1.

Dated: 22nd March, 1982.

RAJ KRISHAN, Returning Officer

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See rule 10(1)]

Election to the Council of States by the Elected Members of Himachal Pradesh Legislative Assembly.

Serial Number	Name of Candidate	Address of Candidates
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Jagdev Chand	Advocate Hamirpur, Himachal Pradesh.
2.	Shri Roshan Lal.	Vill. & P.O. Sanawar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh
Place: Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Simla-4.		
Date: 22nd March, 1982.		

R.K. MAHAJAN, Returning Officer,
(Secretary, Vidhan Sabha)
for election to the Council of States,
Himachal Pradesh.

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See rule 10(1)]

Biennial Election to the Council of States by the Elected Members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

Sl. No.	Name of the Candidates	Address of the Candidates
(1)	(2)	(3)
1.	Keshavprasad Shukla	Uparathi, REWA (M.P.)
2.	Ratna Kumari	House No. 238, Kotwali Ward, JABALPUR (M.P.)
3.	Rameshchandra Shrivastava	110/23, Shivaji Nagar, BHOPAL.
4.	Radhakishan Malviya	Village : Bhicholi Hapshi, Post : Bhicholi Mardana, Tahsil : Indore, Distt. : INDORE (M.P.)
5.	Lal	34/3, C/o Shri Alam Chand Sindhi, Teli Ki Bajariya, Naya Bazar, Lashkar, (GWALIOR) M.P.
6.	Hansraj Bhardwaj	48/1, Duttapura, MORENA (M.P.)
7.	Srikant Verma	Tilak Nagar, BILASPUR (M.P.)

Place : Madhya Pradesh Vidhan Sabha
Bhawan, Bhopal.

Dated : 22nd March, 1981 Chaitra 1, 1904

KAILASH KISHORE GUPTA, Returning Officer
Council of States Election

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra.

Sl. No.	Name of Candidates	Address of Candidates
1.	Kalmadi, Suresh Shamrao	H. No. 42/8, P.M.C. Ward No. 8 Erandavane, Pune-4.
2.	Khaparde, Saroj Purushottam	'Gandhikuti' Dr. Ambedkar Road, Nagpur-17.
3.	Jadhav, Vithalrao Madhavrao	Bhagya Nagar, Nanded.
4.	Deshpande, Bani Laxman	M.H. No. 3, Shah Nivas, Dadar, Bombay-14.
5.	Patil, Dinkarrao Govindrao	28, Vasant Colony, Sangli.
6.	Dr. Bapu Kaldade	Sanmitra Colony, Aurangabad-431001.
7.	Bhandare, Murlidhar Chandrakant	352, Girgaon (Jagannath Sunkersett Road), Bombay-400002.
8.	Mahajan, Pramod Venketesh	19/449, Vijaynagar, Sahar Marg, Andheri (East), Bombay-400069.
9.	Morarka, Kamal Mahavirprasad	24-B, Carmichael Road, Bombay-400026.
10.	Singh, Vishvajit Prithvijit	11-A, Mehrina Napean Sea, Road, Bombay.

Place : Vidhan Bhavan,
Backbay Reclamation,
Bombay-400032.

Date : 22nd March, 1982.

M.G. RANE, Returning Officer

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected Members of the Legislative Assembly of Punjab.

(Biennial Election)

Sl. No.	Name of Candidates	Address of Candidates
1	2	3
1.	Amarjit Kaur	Old Moti Bagh Annexe, Patiala.
2.	Sat Paul	13-14E Sarobha Nagar, Ludhiana.
3.	Gurcharan Singh	V. & P.O. Tohra, District Patiala.
4.	Jagjit Singh	230-L, Model Town, Jullundur.

1

2

3

5. Bhagat Singh D.

27. MLAs' Flats, Sector-3, Chandigarh.

Place : Punjab Vidhan Sabha
Secretariat, Vidhan
Bhavan, Chandigarh.

Dated 22-3-1982.

NAGINDER SINGH, Returning Officer
for Biennial Election to the
Council of States by the
elected members of the Punjab
Legislative Assembly.

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Rajasthan.

Sl. No.	Name of Candidates	Address of Candidates
1.	Gul Mohammad	Nal of Sardulsinh, Gangori Bazar, Jaipur-2.
2.	Dilaram Prakash Jain	Rastriya Pustak Bhandar Bus Stand, Post-Suratgarh, Distt. Shriganganagar.
3.	Nattha	Ward No. 6, Bayana, Distt. Bharatpur.
4.	Bhuvanesh	Bharat Smriti, Bhimganj Mandi, Kota-2.
5.	Mohammad Usman	Chungaran, Bikaner.
6.	Laxmi Narayan Lotterywala	House No. 1766, 2nd Chauraha, Govind Rajiyon Ka Rasta, Jaipur.
7.	Vishnu	Kalka ji Ka Mandir, Opposite Sirehdeohi Gate, Hawa Mahal Road, Jaipur.
8.	Sunder Singh	Panchiyati Nohara, Udaipur.

Place : Sawai Mansingh Town Hall,
Jaipur-302002.

Date : 22nd March, 1982

PYARE MOHAN, Returning Officer

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961]

Biennial election to the Council of states by the elected members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly 1982.

Sl. No.	Name of Candidates	Address of Candidates
(1)	(2)	(3)
1.	Krishna Kaul, Smt.	A/11, Sarvodaya Nagar, Kanpur, U.P.
2.	Krishna Nand Joshi, Sri	Shantipuri, Block 2, Tehsil Kichha, Nainital.
3.	Ghan Shyam Singh, Sri	Vill. Sefa, P.O. Dayalnagar, Tehsil Khair, Aligarh.
4.	Jagdish Prasad Goyal, Sri	Vill. & P.O. Nala Via Aslum (N. Rly), Muzaffarnagar, (U.P.)
5.	Bishambhar Nath Pandey, Sri	142/144, South Malaka, Allahabad.
6.	Rajni Kant Verma, Sri	53, Officers Hostel Mira Bai Marg, Lucknow.
7.	Raj Narain, Sri	Senpura, Varanasi.

1	2	3
8.	Ram Dhan, Sri	Balli Niketan Raidopur, Azamgarh.
9.	Ram Naresh, Sri	Kasba Lal, P.O. Lar, Deoria.
10.	Shanti Tyagi, Sri	Vill. & P.O. Kaithwadi, Meerut.
11.	Shyam Lal Yadav, Sri	C-27/137-6 Rampuri Jagatganj, Varanasi.
12.	Sankata Prasad, Dr.	17/57 Roti Godam Sitapur.
13.	Singh, J.P. Sri	5, Way Road, Lucknow.
14.	Suk Deo, Sri	Vill. & P.O. Piprapti Gorakhpur.
15.	Hari Singh 'Azad', Dr.	Vill. & P. O. Duttawali Gesupur, Meerut
16.	Hashim Raza Abidi Allahabadi, Sri	Kothi Khas Bagh Rampur. (U.P.)

Place: Vidhan Bhawan, Lucknow.

Dated the March 22, 1982.

S.P. SINGH, Returning Officer

[No. 318/AP/82]

By Order

K. GANESAN, Secy.
Election Commission of India

